

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 152]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 23, 1970/वैशाख 3, 1892

No. 152]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 1970/VAISAKHA 3, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 23rd April 1970

S.O. 1521.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below to be Collectors of Customs for the areas mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table :—

TABLE

Designation of Officer	Area
(1)	(2)
(i) Collector (Preventive), Bombay Custom House.	Bombay, Thana and Kolaba districts in the State of Maharashtra.
(ii) Additional Collector (Preventive), Bombay Central Excise Collectorate.	Bombay, Thana and Kolaba districts in the State of Maharashtra.

(1)	(2)
(iii) Additional Collector (Preventive), Madras Custom House.	Areas within the jurisdiction of the Collector of Customs, Madras, as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 36, Customs, dated the 1st February, 1963.
(iv) Additional Collector (Preventive), Madras Central Excise Collectorate.	Areas within the jurisdiction of the Collector of Central Excise, Madras, as specified in rule 2 (ii)(A)(c) of the Central Excise Rules, 1944.
(v) Additional Collector (Preventive), Baroda Central Excise Collectorate.	Areas within the jurisdiction of the Collector of Central Excise, Baroda, as specified in Rule 2(ii)(A)(a) of the Central Excise Rules, 1944.
(vi) Additional Collector (Preventive), Cochin Customs and Central Excise Collectorate	Areas within the jurisdiction of the Collector of Customs and Central Excise, Cochin, as specified in Rule 2(ii)(A)(p) of the Central Excise Rules, 1944.

[No. 44/F. No. 22/4/70-Cus. IV.]

M. G. ABROL, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय
(राज्य और सीमा विभाग)

अधिसूच 1

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 23 अप्रैल 1970

एस० ओ० 1521.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारियों को उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित क्षेत्रों के लिए एतद्द्वारा सीमा शुल्क नियुक्त करती है:—

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	क्षेत्र
1	2
(i) कलक्टर (निवारक), मुंबई सीमा शुल्क गृह।	महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई, थाना और कोलाबा जिले।
(ii) अपर कलक्टर (निवारक), मुम्बई सीमा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरी।	महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई, थाना और कोलाबा जिले।

1

2

- (iii) अपर कलक्टर (निवारक), मद्रास सीमा शुल्क गृह । सीमा शुल्क कलक्टर, मद्रास, की अधिकारिता में के क्षेत्र, जैसा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 36, सीमा शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 1963, में निर्दिष्ट है ।
- (4) अपर कलक्टर (निवारक), मद्रास केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरी । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर, मद्रास की अधिकारिता में के क्षेत्र, जैसा कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 2(ii) (क) (ग) में विनिर्दिष्ट है ।
- (5) अपर कलक्टर (निवारक), बड़ौदा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरी । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर, बड़ौदा की अधिकारिता में के क्षेत्र, जैसा कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 2(ii) (क) (क) में विनिर्दिष्ट है ।
- (6) अपर कलक्टर (निवारक), कोचीन सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरी । सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरी, कोचीन, की अधिकारिता में के क्षेत्र, जैसा कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 27 (ii) (क) (त) में विनिर्दिष्ट है ।

[सं० 44/एफ० सं० 22/4/70-सी० शु० IV]

एम० जी० अब्दोन, संयुक्त सचिव ।

